

Urja Global Ltd.

(AN ISO 9001 Co.) CIN No. L67120DL1992PLC048983

Date: September 09, 2020

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai,
Maharashtra-400051
Scrip Code: 526987

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Maharashtra-400001
Scrip Code: URJA

Sub: Intimation of Cut-off-Date & period for E-Voting & Submission of Newspaper
Advertisement

Dear Sir

This is to inform you that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote at the 28th Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

For this purpose, the Company has fixed 23rd September, 2020 as the cut-off date for determining the eligibility of Members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, who will be entitled to cast their votes electronically from Sunday, 27th September, 2020 (09.00 A.M.) to Tuesday, 29th September, 2020 (5.00 P.M.), in respect of business to be transacted at the aforesaid AGM. The newspaper notice published in this respect is enclosed herewith.

The above information is also available on the Company's website www.urjaglobal.in.

Kindly take the above intimation in your records.

For Urja Global Limited

Dheeraj Kumar Shishodia

Managing Director DIN: 07847284







11-25279143, 45588275

Fax: 11-25279143



हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 34, सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

कब्जा सचना [(परिशिष्ट IV)नियम 8 (1)]

चंकि हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्राधिकत अधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनः निर्माण और प्रतिभति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की 54) (यहां इसके बाद "अधिनियम " के तौर पर संदर्भित) तथा प्रतिभित ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित 1.61.85.685.20/- (केवल एक करोड़ इकसठ लाख पिचासी हजार छः सौ अठावन रुपये तथा बीस पैसे) जो 14.04.2019 को है साथ लागू ब्याज तथा अन्य प्रभारों की अदायगी के लिये निम्नलिखित को दिनांक 16.04.2019 को डिमांड नोटिस जारी किये।

1. मै. सियाराम टैक्सटाईल्स

को इसके स्वामी श्री सत्य नारायण गोयल के माध्यम से जिसका पताः ई-27, मंडिया रोड, पाली राजस्थान-306401

2. श्री सत्य नारायण गोयल

निवासी: 21, अग्रसेन कालोनी, राम नगर, पाली, राजस्थान-306401

. सुश्री आशा देवी गोयल निवासीः अग्रसेन कालोनी, राम नगर, पाली राजस्थान-306401

4. श्री पीयष गोयल

निवासी: 21, अग्रसेन कॉलोनी, राम नगर, पाली, राजस्थान- 306401

श्री गिरीश गोयल (रेहनकर्ता)

निवासीः 21, अग्रसेन कॉलोनी, राम नगर, पाली, राजस्थान- 306401

श्रीमती कमलकंठा

निवासीः 21, अग्रसेन कॉलोनी, राम नगर, पाली, राजस्थान- 306401

7. मै. सियाराम इंडस्टीज

स्थानः पाली, राजस्थान

दिनांक: 08.09.2020

को इसके स्वामी श्री पीयुष गोयल के माध्यम से जिसका पताः 403, मंडियां रोड, पाली, राजस्थान-306401 कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी में असफल रहने पर कर्जदार तथा समान्य जनता को एतदद्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति व्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 8 सितंम्बर, 2020 को यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर और जनता को सामान्य तौर पर संपत्तियों के साथ लेन-देन करने से सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई लेन-देन 1,61,85,658,20/- रु. (केवल एक करोड़ इकसठ लाख पिचासी हजार छः सौ अठावन रुपये तथा बीस पैसे) जो 14.04.2019 को है के साथ लाग ब्याज तथा अन्य प्रभार के लिये एचएफएसीएल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानी

के अंतर्गत प्रतिभृति परिसंपत्तियों को बचाने के लिये समय उपलब्ध है।

अचल संपत्ति/प्रतिभृति परिसंपत्ति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

मकान नं. 22, बोहारों की छाई, पाली वाली संपत्ति

प्राधिकृत अधिकारी हीरो फिनकॉपं लिमिटेड

CIN: U74899DL1991PLC046774 टेली: 011-49487150 फेक्स: 011-49487197 ईमेलः legal@herofincorp.com: वेबसाईटः www.herofincorp.com



पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड सीआईएन : L45201DL1999PLC19593

पंजीकृत कार्यालय : एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर-II, चौथा तल, पुष्प विहार, सेक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेटे कार्यालय : 3122-डी, सिविल लाइन्स, आगरा-दिल्ली बाईपास रोड, आगरा-282002 सम्पर्क नं.: 011-29574800, 0562-4054400, फैक्स नं.: 0562-4070011, वेबसाइट : www.pncinfratech.com, complianceofficetpncinfratech.com

21वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लांजर तथा इलेक्ट्रॉनिक वार्टिंग की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों ('अधिनियम'), भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों एवं सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई. 2020 के प्रावधानों एवं भारतीय प्रतिभति तथा ('सेबी') <u>द्वा</u>रा निर्गत SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020179 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्गत अन्य सभी प्रावधानों के अनुपालन मे कॉमन स्थान पर शेयरघारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम की सुचना (एजीएम पुचना) में निर्धारित प्रकार्य पर लेन-देन हेतु कम्पनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जानी निर्धारित है।

उपर्यक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सचना तथा वित्त वर्ष 2019–20 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के पास मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 को भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना के साथ कथित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.pncinfratech.com मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाइम आरटीए) की वेबसाइट nttps://instavote.linkintime.co.in तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

यथा संशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम सूचन में निर्धारित समस्त संकल्पों पर एजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (अर्थात रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मतदान करने हेत् शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी एजीएम के दौरान उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है। कम्पनी ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग उपलब्ध कराने हेतु लिंक इनटाइम के साथ एक अनुबन्ध किया है।

अधिनियम की धारा 92, उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 42 के सन्दर्भ में कम्पनी के एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कम्पनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की संवीक्ष के लिए श्री दीपक गुप्ता, कम्पनी सचिव, डीआर एसोसिएट्स के साझेदार (सदस्यता सं. FCS 5339; सीपी सं. 4629) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर अर्थात 2 अक्टूबर, 2020 को या इससे पूर्व कर दी जायेगी और इस प्रकार घोषित परिणाम संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट (www.pncinfratech.com) तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट (https://instavote.linkintime.co.in) पर अपलोड कर दिये जायेंगे। शेयरधारकों को एतद्वारा ध्यान देने का निवेदन किया जाता है कि :

(क) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में पंजीकृत है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) रिमोट ई–वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी और मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य एजीएम की सुचना में उल्लिखित संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के पचात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी। किसी संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(ग) सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक कम्पनी की प्रदत्थ शेयर पूँजी में उनके धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।

घ) केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना मतदान नहीं किया है तथा तथा ऐसा करने से अन्यथा वंचित नहीं किये गये हैं, वे 21वीं एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे।

ङ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वह वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(च) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर लिंक इनटाइम से लॉगिन

आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। (छ) शेयरधारक, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकत नहीं हैं वे एजीएम की सुचना में उल्लिखित ''ई-मेल आईडी का पंजीकरण'' का सन्दर्भ ले सकते हैं।

एजीएम/ई-वोटिंग में शामिल होने से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए शेयरधारक/सदस्य https://instavote.linkintime.co.in के हेल्प खण्ड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा इंस्टावोट ई-मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रेसिडेंट-ई-वोटिंग से दुरभाष नं. : +91 22 49186000; ई-मेल : enotices@linkintime.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी के पास complianceofficer@pncinfratech.com, दूरभाष नं. 0562-4054400 पर ई–मेल लिख सकते हैं।

> निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

> > कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तपन जैन

तिथि : ८ सितम्बर, २०२० सदस्यता सं. A22603 L URJA GLOBAL LIMITED CIN: L67120DL1992PLC048983

REGISTERED OFFICE: 487/63, 1st Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi - 110087 CONTACT NO: 011-45588275 WEBSITE: www.urjagiobal.in, EMAIL ID: cs@urjaglobal.in

E-VOTING PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Members of Uria Global Limited will be held on Wednesday, the 30th September 2020 at 11.00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business (es) as mentioned in the AGM notice.

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING,

The cut-off date for determining voting rights of the members, entitled to participate in the voting process with respect to business to be transacted at the AGM of the Company is reckoned as Monday, 23rd Day of September, 2020. Notice convening the AGM along with the copy of Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 has been mailed/dispatched to the members through electronic mode (e-mail) who have registered their e-mail IDs with their depository participants and to other members in physical mode to their registered address. The Notice of the AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of remote e-Voting process can be downloaded at www.evotingindia.com or www.urjaglobal.in.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through Remote e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), Remote E-Voting shall commence on Sunday 27th September, 2020 (09:00 A.M.) and shall end on Tuesday 29th September, 2020 (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be blocked

M/s Nupur Jain & Associates, Company Secretaries (COP No. 20313), have been appointed as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). The members may also write their queries or issues to Ms. Manisha Jain & Ms. Mansi Vohra, Company Secretary Department at 487/63, 1st Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi -

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM/AGM. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.

A person who has acquired shares and becomes a members of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or (cs@urjaglobal.in/ramap@alankit.com)

for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed

inclusive) for the purpose of 28th AGM of the Company. This notice is also available at the website of the Company www.urjaglobal.in and also on the website of NSE and BSE.

DIN: 07847284



इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : शश्ति। विहार, दिल्ली गथुरा रोड, नई दिल्ली 110076 (मारत) निगमित पहचान संख्या. : L24232DL1988PLC030956 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फैचरा : 91-11-26823629 ई.मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : www.delhi.apollohospitals.com

32वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

वार्षिक आम सभा

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के 32वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार 29 सितम्बर, 2020 को प्रातः 10:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्ञल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से आम समा की सूचना के अनुसार व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए की जाएगी।

कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण देश भर में आने-जाने पर प्रतिबंध और सामाजिक सुरक्षा दिशानिर्देशों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 05 मई, 2020 को परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, २०२० और परिपन्न संख्या 17 / २०२० दिनांक 13 अप्रैल, २०२० (बाद में सामृहिक रूप से ''परिपन्न'' के रूप में संदर्भित), कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑंडियो विज्ञल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम रखने की अनुमति दी गई हैं। इसलिए, इन परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के एजीएम का संचालन वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआइआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020 के संदर्भ में, 32वीं एजीएम की सूचना (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है) पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या उनके डिपोंजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। ईमेल के माध्यम से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के नोटिस को सोमवार 7 सितंबर, 2020 को पुरा कर लिया गया है। उपरोक्त उल्लिखित सेबी परिपत्र के संदर्भ में वितीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं हैं। वर्ष 2019—20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.delhi.apollohospitals.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई—वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित कम्पनीज (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 तथा सेबी (सचियन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ और इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ह्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस.एस.–2) के अनुपालन में कम्पनी ने सभी सदस्यों को वार्षिक आम समा सूचना के सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक आधार पर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वार्षिक आम सभा के अलग स्थान से मत डालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम समा सूचना में ई—वोटिंग से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई—वोटिंग सुविधा का विवरण इस

 रिमोट ई—वोटिंग शनिवार 26 सितम्बर 2020 (प्रातः 9.00बजे) से सोमवार 28 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजें) तक खुली रहेगी।

2. कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम सभा की सूचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर 2020, पर रहते है, वह एक अनुरोध ईमेल द्वारा evoting@nsdl.co.in पर भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि, कोई व्यक्ति एनएसडीएल के साथ पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए कर सकता है।

 रिमोट ई—वोटिंग सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 के उपरान्त एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मत डालने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

 जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मत का प्रयोग नही किया, उन्हें वार्षिक आम सभा में मत डालने की सुविधा दी जायेगी। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मत किया है वे वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं पर वार्षिक आम सभा में पुनः मत करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों का मत अधिकार कॅट-ऑफ तिथि पर धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

 कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री बलदेव सिंह काष्टवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3616 और अभ्यास संख्या 3169) को नियुक्त किया है।

 किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्शित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl-co-in/pallavid@nsdl-co-in, दूरभाषः +91 22 24994545 / 4360 / 4738 पर अनुरोध भेजें।

बुक क्लोजर

दिनांक: 08.09.2020

स्थानः नई दिल्ली

सूचना यह भी दी गई हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार और नियमों को सुचीबद्ध विनियमों के विनियमन 42 के साथ पढ़ा गया, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर को, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद

कृतेय इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-प्रिय रंजन

एवीपी - कॉर्पोरेट मामलें और कानून (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) अनंत राज लिमिटेड

(पूर्व में अनंत राज इंडस्टीज लिमिटेड) CIN: L45400HR1985PLC021622 पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. सीपी-1. सेक्टर-8. आईएमटी मानेसर. ग्रेरियाणा-122051 प्रधान कार्यालयः एच-65 कर्नोट सर्कस, नई दिल्ली-110001

साक्षा रिन्न क्रिकेट होती.: 011-43034400, 011-23324127, टेलीफैक्स: 0124-4265817 ईमेल: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयैन द्यायत्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक अन्य बातों के अलावे 30 जन, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामें (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) विचार, अनुमोदन तथा अभिलेख में लेने हेतु एच-65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में कम्पनी के प्रधान कार्यालय में सोमवार. 14 सितम्बर. 2020 को आयोजित की जायेगी। उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.anantrajlimited.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट बीएसई लिमिटेड: www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड:

> अनंत राज लिमिटेड के लिये मनोज पहवा (कंपनी सचिव) A-7812

B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(CIN: L31300DL2008PLC179414) Regd. Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: info@bonlongroup.com, Website: www.bcpowercontrols.com Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 15th day of September 2020 at its registered office situated at 7A/39, W.E.A. Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005, inter alia, to consider and approve the un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020.

Further details are also available on website of Company i.e., www.bcpowercontrols.com. as well as website of Stock Exchange (BSE Limited) i.e., www.bseindia.com Further, in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 read with Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the "Trading Window"

for dealing in the Securities of the Company was closed for all directors, officers and designated employees of the Company from 10th day of August 2020 to 48 hours after the declaration of Financial results for the guarter ended 30th June 2020. By order of the Board

B.C. Power Controls Limited Sd/- (Ankit Garg) Company Secretary & Compliance Officer

Date: 08/09/2020 Place: New Delhi M. No.: A45917

RBLBANK

www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 8.9.2020

आरबीएल बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 1st लेन शाहपूरी कोल्हापूर, 416001. क्षेत्रीय कार्यालयः हंसालय बिल्डिंग, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली- 110001

ई-नीलामी विक्रय सूचना (सरफेसी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत)

प्रतिभूत हित (प्रवंतन) नियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (नियम) के अधीन बैंक द्वारा प्रभारित अचल आस्तियों के विक्रय हेत् ई—नीलामी विक्रय नोटिस। प्राम लोगों को सामान्यतया तथा विशेष रूप से **ऋणी, सह—ऋणी, जमानतदारों, और बन्धककर्ताओं** को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो आरबीएल बँक लिमिटेड के पास गेरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) एवं धास 14 के अंतर्गत लिया गया है, को "जहाँ है", "जैसी है" और "जो कुछ भी है", "बिना किसी साधन या सहारा" के आधार पर नियम 8 व 9 के अंतर्गत नीचे वर्णित ई-नीलामी सूची के अनुसार निविदा आमंत्रण द्वारा बैंक की बकाया राशि + निम्न वर्णित व्याज की वसूली हेतु दिनांक 08.10.2020 को विक्रय की जाएगी। पार्टीज, बकायों एवं सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

病. ゼ.		संपत्तियों एवं वंधककर्ता का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	ACM CANADA	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	दस्तावेजों के साथ बोली जमा करने की अंतिम दिनांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन/ई-मेल
			सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत मांग सूचना एवं कठजा सूचना की दिनांक		थरोहर राशि			
					बोली वृद्धि राशि			
1	1. श्री रहा पाल सिंह टोड (श्रंथककर्ता/ऋणी/जमानतदार/ निदेशक) 2. श्रीमती बलबिन्दर कौर (श्रंथककर्ता/सह-ऋणी/ जमानतदार) 3. श्री मनधीर सिंह टोड (जमानतदार/सह-ऋणी/ निदेशक) क्र.सं. 1-3 निवासी ई-26, साउथ सिटी-1, गुरुआम- 122001 4. मैसर्स जेनिका लाईफस्टाईल प्रा. लि. (ऋणी/सह-ऋणी) द्वितीय तल, ऑरबिड सेन्टर, सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोइ,	सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से और फिटिंग एवं फिक्सचर्स जो भवन संरचना के साथ संलग्न है, जो श्री रशपाल सिंह टोड एवं श्रीमती बलबिन्दर कौर के स्वामित्व में बिल्डिंग/टॉबर-डी में डीपीएच-01, 12वां तल जिसका सुपर एरिया 6083 वर्गफीट दो कवर्ड आरक्षित कार पार्किंग स्लॉट्स बियरिंग नं. 292 एवं 293 के साथ जो प्रुप हाउसिंग कॉलोनी जो अब सेंट्रल पार्क-। के नाम से ज्ञात, राजस्व गांव चक्करपुर एवं बलिसबाद, जिला गुरुग्राम, मैन सेक्टर रोड़, सेक्टर 42, डीएलएफ गोल्फ कॉर्स के पास, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित।	रू. 4,77,32,982/- (रूपये चार करोड़ सतहत्तर लाख बलीस हजार नी सो वियासी मात्र) दिनांक 31.03.2019 तक देव। मांग सूचना की दिनांक 23.04.2019 नकद साख फेसिलिटी: रू. 7,43,06,005.68 (रूपये सात करोड़ वियालीस लाख छः हजार पाँच एवं अड्सड पेसे मात्र) दिनांक 31.03.2019 तक देव। मांग सूचना की दिनांक-02.04.2019	1:00 बजे से सांय 3.00 बजे तक	आरक्षित मूल्यः 6,00,00,000/- (छः करोड़ मात्र) इंएमडीः 60,00,000/- (साठ लाख मात्र) बोली वृद्धि राशिः 5,00,000/- (पाँच लाख मात्र)	बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	को सांस 5:00	दीपक गुप्ता/ 8920244394/ deepak.gupta3@ rbibank.com

नोट:- 1. इच्छ्क बोलीदाता को जात रहे कि प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति पर जात प्रभार निम्नानुसार है: -अ. सोसायटी का अदल बिजली बिल एवं अदल रखरखाव खर्चे रू. 4,35,755/- अर्थात् (दिनांक 31.07.2020 तक का विजली शुल्क रू- 1,51,806/- एवं दिनांक 31.07.2020 तक का सोसायर्ट

खरखाव शुल्क रू.- 2,83,949/- लागू होने वाले अतिरिक्त मासिक सोसायटी रखरखाव शुल्क एवं बिजली शुल्कों सहित) ब. दिनांक 31.07.2020 तक नगरनिगम सम्पत्ति कर कुल रू. 10,401/-

. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ('डीएचसी') के समक्ष निप्नलिखित मामले प्रस्तुत हैं, हालांकि बैंक को सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही और संपत्ति को बेचने की अनुमति दी गई है:

अ. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 ('पीएमएलए') की थारा 5(1) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशक ('ईडी') द्वारा प्रोविजनल अटेचमेंट ऑर्डर सं. 12/2019 दिनांक 02.09.2019 ईसीआईआर नं ECIR/05/DLZO-II/2018 ('पीए ऑडर') में सम्पत्ति संलग्न है। तत्पश्चात् पीएमएलए की धारा 5(5) के अंतर्गत इंडी ने एक शिकायत ओ.सी. नं. 1201/2019 दर्ज की है जो पीए ऑडर की पुष्टि हेत् एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के लिए है। आरबीएल बैंक ने पीए ऑर्डर को रह करने के लिए माननीय डीएचसी के समक्ष लिखित याचिका (W.P. (C) 10048/2019) दायर की, जो कि लंबित है, हालांकि माननीय डीएचसी ने आदेश की विवेचना 13.01.2020 को आरबीएल बैंक की संपत्ति हेतु एडजुडिकेटिंग ऑधोरिटी की कार्यवाही स्थगित कर दी है। इसके अलावा, इंडी ने सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्ति को बेचने के लिए कोई आपत्ति/एतराज ाहीं किया है, जो दिनांक 16.10.2019 के आदेश में दर्ज की गई है। इसके अलावा, माननीय डीएचसी ने दिनांक 06.12.2019 को आदेश दिया और बैंक को संपत्ति बेचने की अनुमति दी और बिक्री को अंतिम रूप देने से पूर्व अदालत को सुचित करने का निर्देश दिया।

ब. आईसीआईसीआई बैंक ने आस्बीएल बैंक को प्रतिभृतियों से वसुली और लेनदेन से रोकने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक वाद CS(comm) 306/2019 दायर किया है जिसमें आईसीआई बैंक ारी पासु चार्ज का दावा कर रहा है। मामले का निपटान करते हुए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.07.2019 के आदेश को अनुमति दी, कि आरबीएल बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और 14 के तहत आगे की

हालाँकि, इच्छक बोलीकर्ताओं को अपनी बोली जमा करने से पूर्व, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों / अधिकारों / बकायों / संपत्ति को प्रभावित करने वाले प्रभारों से संबंधित अपनी स्वतंत्र जाँच करनी नियम व शर्ते:- 1. ई-नीलामी विक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन होगी। इच्छुक बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले बेबसाईट ittps://www.bankeauctions.com एवं https://www.rbibank.com/pdf-pages/news पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

. बोली लगाने से पहले सम्पत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करना और उसे संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। . इच्छुक बोलीराता अपनी धरोहर राशि एवं दस्ताबेज बेब पोटेल https://www.bankeauctions.com (यूजरआईडी एवं पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम पंजीकृत होकर नि:शुल्क प्राप्त कर) के जरिये जमा करा सकते है। बरोहर राशि आरबीएल बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाता नाम -Auction Proceeds Collection GL : खात संख्या : 2599109900130047 (IFSC Code RATN0000990) दिनांक ०६. 10.2020 को सार्थ 5.00 बजे या इससे पूर्व देव होगी।

. इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी 1 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से उपलब्ध सहायता/ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है सम्पर्क 124-4302020/21/22/23, 7291981124/25/26, सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद र्बोहान मोबाईल नं. 9813887931, ईमेल आईडी-delhi@c1india.com एवं सम्पत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए श्री दीपक गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8920244394 ई-मेल Deepak.Gupta3@rblbank.com) से सप्पर्क करें। . बैंक का प्राधिकत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा वह बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित या रद कर सकता है। इस संबंध में

प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बिक्री की पृष्टि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अधीन है। सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदारों/बन्धककर्ताओं को ई-नीलामी की दिनांक से पहले लेनदेन दस्तावजों के अनुसार उपर्युक्त आगे का ब्याज प्लस दण्डनीय एवं अन्य ब्याज व बकायों का भुगतान करने के लिए अधिसुचित किया जाता है, असफल होने पर देय राशि की वसुली के लिए सम्पत्ति की नीलामी अथवा बिक्री कर दी जायेगी। हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी, आखीएल बैंक लिमिटेड दिनांक : 09.09.2020 स्थानः गुरुग्राम

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालयः 6ठी मंजिल, आरिया टावर्स, जेडब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई हवाई अड्डे के समीप, नई दिल्ली - 110 037, दूरमाषः +91-011-41597315, ईमेलः vivek.jain@asianhotelswest.com, वेबसाइटः www.asianhotelswest.com

कम्पनी के शेयरधारकों के ध्यान देने हेतु सूचना 13वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने योग्य सभी प्रावधानों एवं इस आधार पर बनाए गए नियमों, तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") तथा सेबी द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 एवं अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामुहिक रूप से **"प्रासंगिक परिपत्रों"** के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("बीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की आहुत सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के सम्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://emeetings.kfintech.com पर सीघा वेबकास्ट देख सकेंगे। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 हेत् एकल व समेकित वित्तीय विवरण, मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित ८ सितम्बर, २०२० को कम्पनी के उन सदस्यों को प्रेषित किए गए हैं जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर, अर्थात, बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर क्रमशः, तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('केफिनटेक') की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं।

धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेत् संगणित किया जाएगा।

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट दस्तावेज एजीएम सूचना के प्रचलन की तिथि से सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं।

ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छ्क सदस्य <u>vivek.jain@</u> asianhotelswest.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

रिमोट ई-बोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-बोटिंग हेत् निर्देश:

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग के 🔹 अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (**"ई—वोटिंग"**) द्वारा प्रदान

कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों पर केफिनटेक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग . सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट नहीं डाला हो, वे एजीएम में वोटिंग कर सकेंगे।

कम्पनी ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की सेवाओं हेत् केफिनटेक को एजेंसी के रूप में कार्यरत किया है। ई-वोटिंग से संबंधित युजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी एवं

निर्देश सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजे गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया

डीमैटेरियलाइजड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयरों को प्रतिरक्षित रखने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता उपलब्ध नहीं कराया है, हेतू रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है एवं कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com

पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर, अर्थात, बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल

www.nseindia.com पर क्रमशः, तथा केफिनटेक की वेबसाइट

https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी: रिमोट ई-वोटिंग का आरम्भ: 27 सितम्बर, 2020 को प्रात: 9:00 बजे, रिमोट ई-वोटिंग की समाप्तिः 29 सितम्बर, 2020 को सायं 5:00 बजे

रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति पूर्वोक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी एवं रिमोट ई-वोटिंग मॉडवूल को उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर केफिनटेक द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात, 25 सितम्बर, 2020 के अनुसार दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-योटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु या एजीएम में भाग लेने और एजीएम में वोट डालने हेत् अधिकृत होगा।

ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका निम्नानुसार है:

 भौतिक तीर पर शेयरों को प्रतारिक्षित रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/email_registration/ पर विलक करके अथवा फोलियो संख्या के विवरण एवं पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति संलग्न सहित कम्पनी को vivek.jain@asianhotelswest.com पर या केफिनटेक को <u>suresh.d@kfintech.com</u> पर लिखकर शीघ पंजीकरण/अद्यतन करायें।

डीमैटेरियलाइज्ड तीर पर शेयरों को प्रतारिक्षित रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी, जिनके साथ उनका डीमैट खाता है, के साथ अपने ईमेल पता का पंजीकरण/अद्यतन करायें। उचित सत्यापन के पश्चात कम्पनी/केफिनटेक उनके पंजीकृत ईमेल पते पर

उनका लॉगिन क्रेडेंशियल अग्रेषित करेगी। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, वह एजीएम की सचना, जो कम्पनी की वेबसाइट और केफिनटेक की वेबसाइट पर उपलब्ध है,

में वर्णित प्रणाली के अनुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट तरीके से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला हो, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु पुनः एजीएम में अपना बोट खालने हेतु अधिकृत

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य केफिनटेक की वेबसाइट पर "डाउनलोड" अनुमाग में ड्रॉपडाउन मेनू में उपलब्ध "हेल्प" एवं 'FAQ' / ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नों / शिकायतों के समाधान, यदि कोई हो, हेतु निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर ध्यान दें:

श्री सुरेश बाबू डी, उप प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी. प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाईनैनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032, फोन नंः +91 40 6716 2222, टोल-फ्री नंः 1800-345-4001, इंमेलः evoting@kfintech.com

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता/-विवेक जैन

स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं दिनांकः 9 सितम्बर, 2020 अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

स्थान : आगरा

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open

from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days

By the Order of the Board Dheerai Kumar Shishodia



Date: 08.09.2020

Place: New Delhi

FINANCIAL EXPRESS

DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED CIN-L24112UP1992PLC014478 Village Pallawala, Tehsil Dhampur, District Bijnor (U.P.)- 246761 E-mail: info@sugarindia.com

Notice be and is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of Dhampure Speciality Sugars Limited will be held on Tuesday, 15th day of September, 2020 at 2:00 P.M.at the Corporate office 24, School Lane Near World Trade Centre Delhi-110001, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Result for the guarter ended 30th June, 2020 and to consider Chair. This intimation is also available on the website of BSE Limited www.bseindia.com) where the Company's shares are listed and on the website of the Company viz (www.sugarindia.com)

Ancesh Jain Company Secretary & Place: Delhi Compliance Officer Date: 08.09.2020

For DHAMPURE SPECIALITY

SUGARS LIMITED

Sd

RAKAN STEELS LIMITED CIN: L27320UP1985PLC007582 R/O: NH-2, (1 KM FROM BARA TOLI PLAZA) UMRAN, RANIA, KANPUR **DEHAT-209311**

Corporate Office: Anand Palace 10/ 499, Allen Ganj, Kanpur-208002 E-Mail: support@rakansteels.co.in Tel no. +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

NOTICE OF BOARD MEETING NOTICE is hereby given that pursuant to Clause 47(1) (a) of the Listing Obligations as made applicable by SEBI, a Meeting of the Board of Directors of the Company wil be held on Tuesday, the 15th day of September, 2020 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 KM FROM BARA TOLL PLAZA) UMRAN, RANIA, KANPUR DEHAT 209311 inter alia to consider and to take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30 2020 and to transact such other business as may be required. Further information in reference to this is available on the website of the Company i.e. www.rakansteels.co.in For Rakan Steels Limited

Date: September 8, 2020 Garima Priyani Place: Kanpur (Company Secretary & Compliance Officer)

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED CIN: L67120DL1993PLC052256 Regd. Office: 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 E-mail: csvirtualeducation@gmail.com; Website: www.virtualeducation.in Phone: 011-49879687

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Virtual Global Education Limited (the Company) will be held through video conferencing ("VC")/other audio visual means ("OAVM") on Wednesday, the September 30, 2020 at 01:00 P.M to transact the ordinary business and special business as set out in the Notice of the AGM. The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the Shareholders is 08th September, 2020.

In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login

Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services (P) Ltd. at Info@skylinerta.com providing folio number, name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address

Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised DP

These documents are also available on Company's website www.virualeducation.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www-evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, September 27, 2020 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 29, 2020 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2020, may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. September 23, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA Skyline Financial Services (P) Ltd at Info@skylinerta.com, However, if the members are already registered with NSDL 'or remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. CS Shalu Singhal, Practicing Company Secretary (Membership No., 32682 & CP No., 12329), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to Evoting may be addressed to Mr. Neeraj Kaushik, Director, Virtual Global Education Limited, 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 at Email: csvirtualeducation@amail.com

The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the September 23, 2020 to Wednesday, the September 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For and on Behalf of Virtual Global Education Limited

Date: 08.09.2020 Neeraj Kaushik Place : Delhi

P⊕LYC⊕N Internati@nal Ltd Regd. Office: C-98, Jagan Path, Chomu House, C-Scheme, Jaipur (Rajasthan)-302001 CIN: L28992RJ1991PLC006265 • Website: www.polyconltd.com

Phone: 0141-2363048, • Fax: 0141-2377046 • Email: info@polyconltd.com

(Notice of Annual General Meeting & Book Closure)

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 2.00 P.M. through video conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the ordinary businesses set out in the notice of the meeting

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote evoting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act 2013

In compliance with the above circulars, the company has completed the electronic dispatch of the notice of 29th AGM and annual report for the financial year 2019 -2020 on Sunday, 6th September 2020 to the members of the company whose email is registered with the company/RTA/Depository participants .the same will be available on the website of the Company www.polyconltd.com and will also be available on the website of stock exchange i.e., BSE Limited www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the companies (Management and Administrations) Rules, 2014 as amended from time to time and the provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote E-voting services provide by CDSL on all ordinary business set forth in the notice of 29th AGM. The Board of Directors has appointed Mr. B.K Sharma, Practicing Company secretary as scrutinizer for conducting the voting in fair and transparent manner. The voting rights of Members shall be in proportions to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the company as on 23rd September,

THE MEMBERS ARE HEREBY REQUESTED TO NOTE THAT:

a) The remote e-voting portal /facilities shall remain open from Sunday 27th September, 2020 to 9:00 AM to Tuesday 29th September, 2020 at 5:00 PM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the prescribed date and time mentioned

b) A person, whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners maintained by the depositories /RTA as on cut-off date i.e., Wednesday, 23rd September, 2020 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting and voting during AGM. A person who ceases to be a member as on Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again, the member who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting.

may vote during AGM. d) Any person who become the member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., Wednesday 23rd

September, 2020 may obtain the User Id and Password by sending the request to helpdesk.evoting@cdslindia.com the detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the notice of AGM.

MANNER OF REGISTERING/UPDATING EMAIL ADDRESSES IS AS BELOW: 1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id. delhi@linkintime.co.in

2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit

beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Company/RTA email id. delhi@linkintime.co.in Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 and Rules

framed there under and Regulations 42 of SEBI (LODR) REGULATIONS 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company remains closed from Saturday 26th September, 2020 to Wednesday 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 29th AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-

Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). For Polycon International Ltd.

Place : Jaipur **GAJANAND GUPTA**

Date: 06.09.2020

financialexp.epapr.in

(COMPANY SECRETARY)

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Contact Add.: 7th Floor Videocon Tower, Jhandewalan Extension. TATA New Delhi -110055 India.

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"). . M/s Mint Evolution Clothing Pvt. Ltd.,

Through its Director Mohammad Arshad, 8-25, First Floor, Sector- 2, (Near Metro Station), Sec 15, Noida, Uttar Pradesh- 201301

Abdul Hafeez, C-6/168, Yamuna Vihar, Delhi- 110053. Also At: Plot No. 58, Block A. Sector 48, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201301

Mohammad Arshad & 4. Maryam Khan, (Both R/o) Plot No. 58, Block A, Sector 48, Nolda, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201301.

A sum of Rs. 65,95,047/- (Rupees Sixty Five Lakhs Ninety Five Thousand and Forty Seven Only) is due to the Tata Capital Financial Services Ltd (hereinafter referred as "TCFSL" Loan Account No. 7665027 as on 21.07.2020 with future interest under the Home Equity (LAP) loan granted to you by TCFSL on 30.07.2017. In spite of our repeated requests, you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account which has been classified as N P A Account on July 09,2020. As per RBI guidelines pursuant to your default in repaying TCFSL's dues. Myself, exercising the powers of the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued a notice dt. 21st July, 2020 under Section 13 (2) of the aforementioned Act calling upon you to discharge the said debt amounting Rs.65,95,047/- with future interests and costs within 60 days of the notice, failing which the TCFSL shall exercise all or any of the rights detailed w/ Sec 13(4) of the above Act including enforcement of the security interest reated by you in favour of the TCFSL over the property described below.

Schedule of the Property

All that plot of land numbered as 58, situated in Block 'A' at Sector No. 48, in the New Okhla ndustrial Development Area, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Admeasuring 112.5 Sq. Mtrs., More Particularly Described in Lease Deed Dated 25.11.2004, Executed in Favor of Abdul Hafeez, Registered in the Office of Sub Registrar(II) of Noida, Uttar Pradesh. Bounded As: on the North By: A-43, on the South By: 12 Mtr Wide Road, on the East By: A-

With a view to ensure efficacious service of the Demand Notice dated 21st July, 2020, we are hereby effecting service of the said Notice vide the present publication. You are hereby called upon w/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability within 60 days of this notice failing which the TCFSL will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Place: Delhi. Date: 09.09.2020

Authorised Officer Tata Capital Financial Services Limited

INTEGRA TELECOMMUNICATION AND SOFTWARE LIMITED Regd. Office: Flat 901B, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi-110019 Corp. Off: 610/611, Nirmal Galaxy Avior, L.B.S Road, Near Johnson & Johnson, Mulund (West), Mumbai-400080

E-mail:info@integratelesoftware.com, Website: www.integratelesoftware.com CIN:L74899DL1985PLC020286, Phone: 011-41008327/022-61982800 NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of

the Members of Integra Telecommunication and Software Limited is scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 03:00 P.M. (IST), through video conferencing ("VC") or other audio-visual means ("OAVM"), to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 w.r.t Clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") read with circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, circular No.17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 w.r.t. Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Covid-19 pandemic ("SEBI Circular"), permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, and dispensed personal presence of the Memrs at the common venue during AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), MCA Circulars and SEBI Circular, the AGM of the Company is being held through VC/ OAVM. Hence, the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM. In terms of the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the

the Members have been dispensed vide the aforesaid MCA Circulars and Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), the Company is providing the facility for Remote e-voting as well as the e-voting atthe AGM toits Members to exercise their right to vote by electronic means on any or all of the businesses specified in the Notice convening 35thAGM through NSDL

AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent on

Tuesday, September 8, 2020 by email to those Members whose email

addresses are registered with the Company/Depositories. The requirements

of sending physical copy of the Notice of the AGM and the Annual Report to

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, i.e. Wednesday, September 23, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating intheAGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM, and exercise their right to vote by electronic means on any or all of the businesses specified in the Notice

e-voting platform. The details pursuant to the Act are as under:

The Remote e-voting commences on Sunday, September 27, 2020, 09:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, September 29, 2020,05:00 P.M. (IST). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast bythe Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. A person who is not a Member as on cut- off date should treat this Notice

for information purposes only. A member whose Email ID is already registered with the Company,

Depository, may follow the instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM. Memberwhose Email ID are not registered with the Company/Depository Participants, shall follow the process as mentioned in the Notice of the AGM for procuring User ID and Password and

registration of Email ID for e-voting. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of AGM. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

Any Person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off datei.e. Wednesday, September 23, 2020 may obtain login id and password by sending an email at evoting@nsdl.co.in or cs@sjagroup.co.in by mentioning Folio No./DP ID and Client ID. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the

A Member can opt for only one mode of voting i.e. either through Remote e-voting or by e-voting system at the AGM. The procedure for e-voting at the AGM is same as the procedure for remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the AGM. Only those Members, who are present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the businesses as specified in the Notice throughRemote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

The Board of Directors has appointed Mr. Rushabh Narendra Doshi Practicing Company Secretary (holding ACS No. 24406 and CP No. 11412) as a Scrutinizer to scrutinize the e-voting atAGM and Remote e-voting process in a fair and transparent manner

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 are available on the Company's website at www.integratelesoftware.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL's website at www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report shall be placed on

the Company's website www.integratelesoftware.com and shall also be in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the

download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos .: - +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic

For, Integra Telecommunication and Software Limited

Date: 08th September, 2020

Jeet Rajen Shah Place: Mumbai Director & CFO Veer Sawarker Block, Vikas Marg, Shakerpur, Delhi- 110092.

Registered Office: 205, 2nd Floor, Agrawal Chamber IV, 27.

(CIN No. L72100DL1993PLC179154)

FCS FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby notified that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 15" September, 2020 at the Corporate Office of the Company at FCS House, Plot No. 83, NSEZ, Noida Dadri Road, Phase I Gautam Buddha Nagar, Noida- 201305 (U.P), inter alia, to consider and approve the Unaudited financial results of the company for the guarter ended on June 30, 2020.

> By Order of the Board of Directors For FCS Software Solutions Limited

Place: Noida Date: 8 September, 2020

(Harsha Sharma) Company Secretary

Managing Director

DIN: 08052540

F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN: L65100DL1993PLC053936

Regd. Office: IInd Floor, Central Bank Building 13-B,

Netaji Subhash Marg, Daryaganj, Delhi- 110002 Email: fmecinternational@gmail.com; Website: www.fmecinternational.com Pursuant to Regulation 29(1)(a)read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 2" meeting of the Board of Directors of the Company for the Financia Year 2020-2021 is scheduled to be held on Monday, 14th September, 2020 at 4:30 P.M.a the Registered Office of the Company at IInd Floor, Central Bank Building, 13 B Netaj Subhash Marg, Daryagani, Delhi- 110002 to consider and approve, amongst other items of Agenda, standalone unaudited Financial results, along with Limited Review report of the Company for Quarter ended on 30" June 2020 This information is also available on the website of the Company i.e

www.fmecinternational@gmail.com and on the website of BSE Limited i.e www.bseindia.com.

For F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED **APOORVE BANSAL**

Date: 08.09.2020 Placce: New Delhi

CIN: L01111DL1993PLC052845

Regd. Off: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006 Phone: 011-23968328, Fax: 011-23968327 Email: investor@krblindia.com; Website: www.krblrice.com NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE

E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION ETC.

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of KRBL Limited will be held on Wednesday, 30 September 2020 at 12.00 Noon (IST), though Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the businesses as mentioned in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020. 17/2020 and 20/2020 dated 08 April 2020. 13 April 2020 and 05 May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (" collectively referred to as MCA Circulars) and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 27th AGM and the Annual Report has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the same to all the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23 September 2020, may cast their vote electronically on the items, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting"). Further, all the Members are informed that: Date and time of commencement of Remote E-voting is Sunday

- 27 September 2020 (09:00 A.M.). Date and time of end of Remote E-voting is Tuesday, 29
- September 2020 (05:00 P.M.) (iii) A person whose name is recorded in the register of members or
- in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Wednesday, 23 September 2020, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM. (iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes
- member of the Company after the dispatch of Notice of AGM may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com, investor@krblindia.com or rta@alankit.com. (v) Those Members holding shares in physical form, whose email
- addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending copy of the following documents by email to investor@krblindia.com or rta@alankit.com.
- a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address:
- scanned copy of the share certificate (front and back);
- self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of the document (such as AADHAR
- of the address of the Members as registered with the Company Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 P.M. on Tuesday, 29 September 2020. The E-Voting module

Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support

- shall be disabled by CDSL for voting thereafter. (vii) The Notice of 27th AGM and Annual Report is available on the Company's website at www.krblrice.com, under the link Investor
- Relations, and on CDSL website at www.evotingindia.com. (viii) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior
- to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM (ix) For electronic voting instructions, Members may go through
- the instructions in the Notice of 27th AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the HELP section of www.evotingindia.com or may helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on +91-22-23058542/43. Result of the remote e-voting/voting during the AGM shall be
- declared on or before Friday, 02 October 2020. The Result declared along with the Scrutinizer's Report shall be available on Company's Website at www.krblrice.com and communicated to the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013

and rules made thereunder read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain Closed from Wednesday, 23 September 2020 to Wednesday, 30 September 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 27" AGM of the Company. By Order of the Board

> For KRBL Limited Raman Sapra

Place: Noida Dated: 08 September 2020 Company Secretary

URJA GLOBAL LIMITED CIN: L67120DL1992PLC048983 REGISTERED OFFICE: 487/63, 1st Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi - 110087

CONTACT NO: 011-45588275 WEBSITE: www.urjaglobal.in, EMAIL ID: cs@urjaglobal.in NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING,

E-VOTING PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Members of Urja Global Limited will be held on Wednesday, the 30th September 2020 at 11,00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business

The cut-off date for determining voting rights of the members, entitled to participate in the

voting process with respect to business to be transacted at the AGM of the Company is reckoned as Monday, 23rd Day of September, 2020. Notice convening the AGM along with the copy of Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 has been nailed/dispatched to the members through electronic mode (e-mail) who have registered their e-mail IDs with their depository participants and to other members in physical mode to their registered address. The Notice of the AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of remote e-Voting process can be downloaded at www.evotingindia.com or www.urjaglobal.in.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through Remote e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Remote E-Voting shall commence on Sunday 27th September, 2020 (09,00 A.M.) and shall end on Tuesday 29th September, 2020 (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be blocked

M/s Nupur Jain & Associates, Company Secretaries (COP No. 20313), have been appointed as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent

System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). The members may also write their queries or issues to Ms. Manisha Jain & Ms. Mansi Vohra, Company Secretary Department at 487/63, 1st Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi

not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not parred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM/AGM. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM

(cs@urjaglobal.in/ramap@alankit.com) The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days

This notice is also available at the website of the Company www.urjaglobal.in and also on the website of NSE and BSE. By the Order of the Board

RattanIndia

Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindia.com/ril, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE is hereby given that 10th Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Infrastructure Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 5:00 P.M. through Video Conferencing

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Private Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Wednesday, the 23rd day of September, 2020, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for remote e-voting and electronic voting at AGM is contained in the Notice of

on the Company's website www.rattanindia.com/ril and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting). The remote e-voting period commences on Sunday, the 27th day of September, 2020 at 10.00 A.M. and ends on Tuesday, the 29th day of September, 2020 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 22nd day of September, 2020 to Wednesday, the 30th day of September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited at evoting@kfin.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Private Limited, (Unit: RattanIndia Infrastructure Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-3454-001.

Date: 08.09.2020

Place: New Delhi

Company Secretary

Dated: 07.09.2020.

PUNJAB & SIND BANK BRANCH: CIVIL LINES, LUDHIANA, PH.: 0161-5068078 [RULE-8(1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab & Sind Bank, under the Securitization

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice(s) to borrower(s)/guarantor(s) on the dates mentioned hereunder; calling upon the borrower(s)/ guarantor(s) to repay the amount(s) mentioned in the respective demand notice(s), within 60 days from the date of receipt of the said notice.

general that the undersigned has taken possession of the property/ Properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with the Rule 9 of the said rule, on the date mentioned here in below. The borrower(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property & any

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) & the public in

dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, for an amount as mentioned herein below, with interest and other charges accrued thereupon. Name of the Description of the Date of Date Amount Outstanding Account Immovable/Mocable the Date of notice Demand Properties/Vehicles Notice Possession

1. Ms. Shriya Kapoor D/o Sh. All that part & parcel of 27.03.2019 04.09.2020 Rs. 5,96,647.40 with

Rakesh Kapoor, 2. Sh. Rakesh the Property/Shop No. 4, bearing MC No. B-I-1176/B interest & other Charges

Kapoor S/o Sh. Sunder Dass (Ground Floor only), Measuring 35-3/20 Sq. Yds., accrued thereon w.e.f. (Borrowers), 3. Smt. Vandana Bindraban Road, Civil Lines, Ludhiana, Regd. Vide 01.09.2020 Kapoor W/o Sh. Rakesh Kapoor (Guarantor), All R/o B-I-395, Near Kailash Cinema, Civil Lines, Ludhiana, Regd. Vide 01.03.2020 Sale Deed, bearing Wasika No. 8760 dated 19.07.1988, in the name of Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Sunder Dass (This Property is also mortgaged in case of Ludhiana & 4. Sh. Pawan Kumar ODPA/C M/s Kapoor Selection).

DATE: 09.09.2020

S/o Sh. Sunder Dass (Guarantor), R/o B-I-10/10, Upkar Nagar, Civil Lines, Ludhiana.

of Request Proposal (RFP) document.

4. The Authority accordingly invites Applications from the eligible developers, to being shortlisted for the issue

Thousand only) through Demand Draft, drawn in favour of Commissioner, Maylladuthurai Municipality payable at

Date: 08.09.2020

Place: New Delhi

es) as mentioned in the AGM notice.

n case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have

A person who has acquired shares and becomes a members of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or

nclusive) for the purpose of 28th AGM of the Company.

Dheeraj Kumar Shishodia Managing Director DIN: 07847284

RattanIndia Infrastructure Limited (CIN: L40101DL2010PLC210263)

Registered Office: H.No. 9, First Floor, Vill. Hauz Khas, New Delhi -110016

NOTICE OF 10" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses set out in the Notice dated September 4, 2020 calling AGM. Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

The Notice of AGM along with all the documents referred to therein, is available

and transparent manner.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please

For Rattanindia Infrastructure Limited R. K. Agarwal

GOVERNMENT OF TAMIL NADU MAYILADUTHURAI MUNICIPALITY

NOTICE INVITING REQUEST FOR QUALIFICATION (Third Call)

PPP Mode (DBFOT Basis), including financial management and maintenance for a period of 22 years in Survey No. 169/1A part.

Email:commr.mayiladuthurai@tn.gov.in

Notice inviting RFQ for Construction of a New Bus Stand Infrastructure Project for Maylladuthurai Municipality. TamilNadu, on a

170, 172, 174, 175, 176/part at Manakudi Village, in Mayiladuthural. Inviting authority: The Commissioner, Mayiladuthurai Municipality, Nagapattinam District – 609001, Tamil Nadu. Phone: 04634-222555, 221400.

Roc.No: 4812/2016/E1

. The Government of Tamil Nadu is keen to improve the intercity bus transport infrastructure in the State of Tamil Nadu. As a part of this effort, it is proposed to develop and establish state-of-the-art, bus terminals, in the State on Public-Private-Partnership basis. These terminals would be operated and maintained at a pre-determined quality standard, rendering cost effective and efficient services to the users. The Mayiladuthural Municipality (the Authority) has been authorized by the Municipal Council Construction.

Operate and Transfer ('DBFOT' mode of PPP) ('Project') in accordance with the terms and conditions to be set forth in a concession agreement, to be entered into. 3. The said Project is for the Concession Period of 22 years, including the right to develop, design, finance, construct and maintain the commercial facility and amerities, to undertake the marketing, booking and allotment of built up area

5. A pre-bid meeting for the prospective Bidders, who are interested in bidding for the above-mentioned project, will be held on 01.10.2020 at 11.00 Hrs at Municipal Office, Maviladuthurai.

AUTHORISED OFFICER

PLACE: LUDHIANA

development, and management of new Integrated Bus Terminal Infrastructure Project, Design, Build, Finance,

The Estimated Project cost is 38.05 crores) there in and to demand, charge, collect, retain and appropriate the user charges and the permit there from.

The Eligibility Criteria and other terms and conditions are given in RFQ. 7. The RFQ may be obtained the address given above during office hours, on payment of Rs.10000/- (Rupees Ten

Mayiladuthurai processing fees. The RFQ may also be downloaded from 10.09.2020 from the Official Website https://tntenders.gov.in 9. The last date for Submission of RFQ is 15.00 Hrs on 15.10.2020 Commissioner, Mayiladuthurai Municipality

New Delhi

DIPR/3362/TENDER/2020